

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 1972/पोष 7, 1894

No. 530] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1972/PAUSA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 28th December 1972

S.O. 769(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52-Customs dated the 6th April, 1972, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters, and word "31st December, 1972" the figures, letters and word "31st December, 1973" shall be substituted.

[No. 138/F. No. 555/75/72-L.C.I.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1972

का० आ० 769 (अ) —सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52-सीमाशुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1972” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, “31 दिसम्बर, 1973” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 138/फा०सं० 555/75/72-एल०सी० I]

एम० जी० अन्नोल, संयुक्त सचिव।